

प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक: 17.12.2020

रवि करन हत्याकाण्ड में वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सतेन्द्र थाना गुलावठी पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्त के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी श्री सचिन मलिक के नेतृत्व में दिनांक 17.12.2020 को व0उ0नि0 प्रवेन्द्र कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली रवि करन हत्याकाण्ड में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधी सतेन्द्र कही जाने वाले की फिराक में धौलाना अड्डा के पास खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मुखबिर बताये गये स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त सतेन्द्र को समय करीब प्रातः 06.50 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सतेन्द्र पुत्र नानकचन्द निवासी मौ0 रामनगर कर्णपुरी कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
हाल पता- मोहननगर कॉलोनी बस स्टैण्ड के पास कस्बा व थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।

गिरफ्तार अभियुक्त सतेन्द्र व मृतक रवि करन रिस्ते में भाई है जिनका एक प्लाट को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। दिनांक 27.02.2020 को अभियुक्त सतेन्द्र द्वारा अपने साथी नीरज, जितेन्द्र उर्फ जीत व कपिल के साथ मिलकर रवि करन की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं-109/20 धारा 323/302/34 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्त सतेन्द्र लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त नीरज, जितेन्द्र उर्फ जीत व कपिल को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना गुलावठी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री सचिन मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी
- 2- व0उ0नि0 प्रवेन्द्र कुमार
- 3- का0 विरेन्द्र यादव, का0 पंकज, का0 पंकज कुमार, का0